



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना कोतवाली जनपद आगरा । दिनांक 29.07.2022

एसओजी, सर्विलांस व थाना कोतवाली पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा थाना क्षेत्र में हुयी डकैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों मय 01 अभियुक्ता सहित कुल 05 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से लूट के कुल रू0 8,49,000/- व 04 तमन्वा मय कारतूस बरामद....

दिनांक 22.07.2022 को वादी आनन्दपुरी द्वारा थाना कोतवाली को सूचना दी गयी कि मैं गुजरात का मूल निवासी हूं तथा वर्तमान में वंशीधर अग्रवाल का मकान तिवारी गली रावतपाड़ा थाना कोतवाली जनपद आगरा में एम0एन0 कोरियर कार्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे साथ 01-सनी, 02-सहदेव, 03-क्रिपाल व सिकन्दर भी काम करते हैं। आज दोपहर के समय मेरे कार्यालय पर मुंह पर काला मास्क लगाये हुए चार बदमाश आये और असलाह से फायर करते हुए हम पर तमंचा तान दिया और हम लोगों के मुंह सेलोटैप से बांध दिये। हमको मारने की धमकी देते हुए 10 लाख रू0 मेरे कार्यालय एवं ऊपर के कमरे से 30 लाख लेते हुए कुल 40 लाख रूपये लूट लिये। इस दौरान पैसे कोरियर करने के लिए आये एक अन्य ग्राहक से भी पैसे छीन लिये और शटर बन्द कर भाग गये। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 44/22 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त संवेदनशील घटना की सूचना पर तत्काल श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आगरा द्वारा मौका मुआयना किया गया एवं घटना के सफल अनावरण व संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली सहित अन्य टीमों को गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

पुलिस टीमों द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु सीसीटीवी, लोगों से पूछताछ, मुखबिर आदि सूचना के विभिन्न माध्यमों द्वारा तलाश की जा रही थी। पुलिस टीम को सीसीटीवी के माध्यम से मोटरसाइकिल व गाड़ी के नम्बर प्राप्त हुआ और अभियुक्तगण की तलाश की गयी।

दिनांक 26.07.2022 को पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 02 अभियुक्ता सहित कुल 05 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे लूट के कुल ₹0 4,00,000/- व 01 अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

इसी क्रम में दिनांक 28.07.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त लूट की घटना में संलिप्त अभियुक्तगण यमुना एक्सप्रेसवे खन्दौली से खेरिये की तरफ जाने वाले रास्ते के मोड पर रुके हुये है। अगर आप लोग जल्दी करें तो पकडे जा सकते हैं।

उपरोक्त प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर एक वारगी दविश देते हुये महिला आरक्षियों एवं पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल ₹0 8,49,000/- व 04 अदद तमंचा मय 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग में धारा 394 को धारा 395 में तरमीम करते हुए धारा 120बी/412/212/34 भादवि की वृद्धि की गयी।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम पवन उर्फ गुटकन्ना, देवा, सागर परमार, दीपक शर्मा उर्फ छोटू उर्फ वोडाफोन बताया गया। कडाई से पूछने पर बताया गया कि इस लूट की घटना को कारित करने का आइडिया आकाश ने दिया था। हवाला का पैसा है, लूटने पर कोई मुकदमा नहीं लिखा जायेगा। हम लोग हरिओम की स्कार्पिओं व पवन का मोटरसाइकिल को लेकर घटना करने तिवाली गली में गये थे। प्लानिंग के अनुसार हमने स्कार्पिओं को फोर्ट स्टेशन पर खडा करके मोटरसाइकिल व पैदल हम चारो कोरियर कम्पनी के ऑफिस में घुसे थे और कुछ साथी ऑफिस के आस-पास हमारी सुरक्षा में छुपकर खडे थे, कोई बाहर से न आ पाये। लूट की घटना करने के बाद हम सभी लोग खन्दौली फ्लाईओवर के पास पहुँचकर आपस में पैसो का बंटवारा किया।

अभियुक्तगणों का विवरण:-

01. पवन उर्फ गुटकन्ना पुत्र गिरीश उर्फ पप्पू निवास ग्राम रामनगर थाना खंदौली जनपद आगरा।
02. देवा पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम बबान थाना खंदौला जनपद आगरा।
03. सागर परमार पुत्र बच्चू सिंह परमार निवासी रामनगर थाना खंदौली जनपद आगरा।
04. दीपक शर्मा उर्फ छोटू उर्फ वोडाफोन पुत्र नेत्रपाल शर्मा निवासी रामनगर थाना खंदौली जनपद आगरा।
05. संगीता पत्नी नेत्रपाल निवासी रामनगर थाना खंदौली जनपद आगरा।

फरार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. आकाश पुत्र ओमवीर सिंह निवासी नगला धमाली थाना खंदौली जनपद आगरा ।
02. हरिओम परमार पुत्र राधेश्याम परमार ग्राम औलेन्दा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
03. ओमप्रकाश उर्फ रानू शिशोदिया पुत्र खुशीराम शिशोदिया ग्राम औलेन्दा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
04. सन्दीप राठौर पुत्र हरिसिंह राठौर ग्राम औलेन्दा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।

बरामदगी का विवरण:-

01. कुल रू0 8,49,000/- लूट से सम्बन्धित ।
02. 04 अदद तमंचा मय 04 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. अभियुक्त पवन उर्फ गुटकन्ना:-

01. मु0अ0सं0 195/21 धारा 147/148/149/323/504/307 भा0द0वि0 थाना खंदौली जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 165/22 धारा 147/148/149/308/323/336/452 भा0द0वि0 थाना खंदौली जनपद आगरा ।
03. मु0अ0सं0 44/22 धारा 395/412/212/120बी/34 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद आगरा ।
04. मु0अ0सं0 46/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आगरा ।

02. अभियुक्त देवा:-

01. मु0अ0सं0 44/22 धारा 395/412/212/120बी/34 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 47/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आगरा ।

03. अभियुक्त सागर परमार:-

01. मु0अ0सं0 44/22 धारा 395/412/212/120बी/34 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 48/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आगरा ।

04. अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ छोटू उर्फ वोडाफोन:-

01. मु0अ0सं0 44/22 धारा 395/412/212/120बी/34 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 49/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आगरा ।

05. अभियुक्ता संगीता:-

01. मु0अ0सं0 44/22 धारा 395/412/212/120बी/34 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद आगरा ।

पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाषचन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आगरा ।
02. निरीक्षक श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद आगरा ।
03. निरीक्षक श्री प्रेमपाल सिंह थाना कोतवाली जनपद आगरा ।
04. उ0नि0 श्री कुशलपाल सिंह थाना कोतवाली जनपद आगरा ।
05. उ0नि0 मोहित सिंह थाना कोतवाली जनपद आगरा ।
06. मु0आ0 वीरेन्द्र सिंह, मु0आ0 सूर्यप्रताप सिंह, मु0आ0 आशीष शुक्ला, आ0 विपिन, आ0 लोकेश कुमार, आ0 मुकुल शर्मा, आ0 वसीम अकरम, आ0 राकुल, आ0 मानवेन्द्र उपाध्याय एसओजी टीम जनपद आगरा ।
07. आ0 विजयपाल सर्विलांस टीम जनपद आगरा ।
08. आ0 दीपक राणा, आ0 अतेन्द्र कुमार, आ0 अमित पाल, म0आ0 भावनापाल थाना कोतवाली जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।